



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (b)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] मई विलो, सोमवार, फरवरी 28, 1977/फाल्गुन 9, 1898

No. 64] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 1977/PHALGUNA 9, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1977

G.S.R. 95 (E).—In exercise of the powers conferred by section 67, read with section 8 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Recruitment of Members of Staff) Rules, 1974, namely :

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Recruitment of Members of Staff) Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Schedule to the said rules, for items 8 to 20 and the entries relating thereto, the following items shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7	8
Private Secretary	Three	General Central Services Group B (Gazetted)	Rs. 650—30—740—35—310—BB—35—880—40—1000—BB—40—1200	Selection Post	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Two years	(i) 33 1/3% by promotion, failing which by transfer on deputation including short-term contract.	By promotion Stenographers Grade II in the Commission with 14 years' regular service in the grade.	Composition of D.P.C. Chairman : Secretary, MRTPT Commission. Members : 1. Deputy Secretary, MRTPT Commission.	Not applicable			
	(ii) 65 2/3% by transfer failing which by transfer on deputation (including short-term contract)	By transfer/transfer on deputation (including short-term contract) Officers belonging to Selection Grade of CSSS, Grade I of CSSS with 6 years' regular service, Grade II of the CSSS with 14 years' regular service or Senior Stenographer in the scale of Rs. 425—70—800 with 14 years' regular service in that scale under the Central Government/	2. Under Secretary (Administration) in the Department of Company Affairs. 3. An officer belonging to Scheduled Caste/Tribe not below the rank of Under Secretary to the Government of India.				

State Government/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Reserve Bank of India/State Bank of India/Universities.

(Period of deputation/short-term contract ordinarily not exceeding 5 years)

1	2	3	4	5	6	7	8
9. Upper Division Clerk	Six	General Central Service Group C (Non-Gazetted) (Ministerial)	Ra. 330—10—380— EB—12—500— EB—15—560.	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable
9	10	11	12	13			
Two years	(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation	Promotion Lower Division Clerks in the Commission with 5 years' regular service in that Grade.	Composition of D.P.C. Chairman : Deputy Secretary, MRTF Commission. Members : 1. Administrative Officer, MRTF Commission.	Not applicable			
	(ii) 50% by transfer failing which by transfer on deputation.	Transfer/Transfer on deputation Upper Division Clerks with three years' regular service or Lower Division Clerks with 5 years' regular service in other Central Government Offices (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)	2 Under Secretary (Administration) in the Department of Company Affairs. 3. An officer belonging to Scheduled Caste/Tribe not below the rank of Under Secretary to the Government of India.				

1	2	3	4	5	6	7	8
10. Lower Division Clerk	Twelve	General Central Service Group C (Non-Gazetted) (Ministerial)	Rs. 260-6-290- EB-6-326-8- 366-EB-8-390- 10-400.	Not applicable	25 years	Essential (1) Matriculation or equivalent. (2) Typing speed of 30 words per minute provided that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in type-writing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	(i) 90% by direct recruitment. (ii) 10% by selection from amongst Class IV employees borne on the regular establishment of MRTP Commission subject to the following conditions : (a) Selection would be made through a Departmental	Not applicable	Not applicable	Not applicable

competitive examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirements of the minimum qualification, namely matriculation or equivalent;

- (b) The maximum age for this examination would be 45 years (50 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes Candidates);
- (c) At least 5 years' service in Class IV shall be essential; and
- (d) The maximum number of recruits by this method would be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occurring in a year.

Unfilled vacancies would be carried over

	1	2	3	4	5	6	7	8
II. Telephone Operator	One	General Central Service Group C (Non-Gazetted) (Ministerial)	Rs 260—6—290— EB—6—326—8— 366—EB—8—390— 400	Not applicable	25 years	Matriculation or equivalent with experience of operating of PBX Exchange.	Not applicable	
	9	10	11	12	13			
Two years	Direct Recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable			

1	2	3	4	5	6	7	8
12. Staff car driver	One	General Central Service Group C (Non-Gazetted) (Non-Ministerial).	Rs. 260—6—290—BE—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.	Non Selection.	30 years.	<i>Essential</i> Professional skill in driving and knowledge of motor mechanism. Should hold a driving licence for cars with at least 5 years' experience in driving. <i>Desirable</i> A pass in Middle School Standard.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By transfer failing which by direct recruitment.	By transfer as a result of a test in driving, designed to adjudge suitability for the post with reference to the standards of competence considered essential in drivers of staff cars from amongst the regular Class IV employees of the Commission who possess the qualifications mentioned in Column 7.	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
13. Daftry	Three	General Central Service Group D (Non-gazetted).	Rs. 200—3—206—4—234—EB—4—250.	Non Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By promotion failing which by transfer failing which by transfer on deputation.	<i>Promotion</i> Peons in the Commission with 3 years' regular service in that grade. <i>Transfer/Transfer on deputation</i> Persons holding analogous posts or peons with 3 years' regular service in that grade in Central Government offices. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	<i>Composition of D.P.C.</i> Chairman : Administrative Officer, MRTF Commission. Members : 1. Deputy Director, MRTF Commission 2. Section Officer in charge of Administration in the Department of Company Affairs. 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Tribes not below the rank of Section Officer.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
14. Jamadar	Three	General Central Service Group D (Not-gazetted)	Rs. 200—3—206—4—234—EB—4—250.	Non Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By promotion failing which by transfer failing which by transfer on deputation.	<i>Promotion</i> Peons in the Commission with 3 years' regular service in that grade. <i>Transfer/Transfer on deputation</i> Persons holding analogous posts or peons with 3 years' regular service in that grade in Central Government offices. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)	<i>Composition of D.P.C.</i> Chairman : Administrative Officer, MRTF Commission. Members : 1. Deputy Director, MRTF Commission. 2. Section Officer in charge of Administration in the Department of Company Affairs. 3. An officer belonging to Scheduled Castes/Tribes not below the rank of Section Officer.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
15. Peon	14	General Central Service Group D (Non-gazetted)	Rs. 196—3—220—EB—3—232.	Not applicable	25 years	1. Middle pass	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	By transfer failing which by direct recruitment	<i>Transfer</i> (i) 75% by transfer of persons holding analogous posts in Central Government offices and possessing qualifications as in Column 7. (ii) 25% by transfer of Sweepers, Farashes and Chowkidars in the MRTF Commission who have put in a minimum of 5 years' service and possess elementary literacy which shall be judged by a simple written Departmental test and proof of ability to read Hindi.	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
16. Sweeper	One	General Central Service Group D (Non-gazetted)	Rs. 196—3—220—EB—3—232.	Not applicable	25 years	<i>Desirable</i> A pass in the Primary School Standard	Not applicable

9	10	11	12	13
Two year	Direct recruitment failing which by transfer.	<i>Transfer</i> Persons holding analogous posts in Central Government offices.	Not applicable.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
17. Chowkidar	Two	General Central Service Group D (Non-gazetted).	Rs. 196—3—220—EB—3—232.	Not applicable	25 years	<i>Desirable</i> A pass in the Primary School Standard	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	Direct recruitment failing which by transfer.	<i>Transfer</i> Persons holding analogous posts in Central Government Offices.	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
18. Fresh	One	General Central Service Group D (Non-gazetted)	Rs. 196—3—220— EB—3—232 .	Not applicable	25 years	<i>Desirable</i> A pass in the Primary School Standard.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	Direct recruitment failing which by transfer.	<i>Transfer</i> Persons holding analogous posts in the Central Government offices.	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
19. Library Assistant.	One	General Central Service Group C (Non -Gazetted) (Ministerial).	Rs. 330—10—380— EB—12—500— EB—15—560.	Not applicable	25 years	<i>Essentials :</i> 1. Degree of a recognised University or its equivalent. 2. Diploma Certificate in Library Science. <i>Desirable :</i> Practice of Hindi/English Type-writing.	Not applicable

9	10	11	12	13
Two years	Direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
20. Stenographer Grade III	8	General Central Service Group C (Non-Gazetted) (Ministerial)	Rs. 330—10—380— EB—12—500— EB—15—560.	Not applicable	25 years	Matriculation or equivalent with speed in typewriting at 40 w.p.m. and 100 w.p.m. in shorthand.	Not applicable
9	10	11	12	13			
Two years	Direct Recruitment failing which by transfer on deputation.	Transfer on Deputation Persons holding analogous posts of Stenographers in Central Government offices. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)	Not applicable	Not applicable			
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Assistant	Four	General Central Service Group C (Non-Gazetted) (Ministerial).	Rs. 425—15—500— EB—15—560—20— 700—EB—25—800.	Non-selection post.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
9	10	11	12	13			
Two years	(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation. (ii) 50% by transfer failing which by transfer on deputation.	Promotion Upper Division Clerks in the Commission with 5 years' regular service in the Grade. Transfer/Transfer on deputation Persons holding analogous posts or Upper Division Clerks with at least 5 years' regular service in the Grade in Central Government offices. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Composition of D.P.C. Chairman : Deputy Secretary Commission. Members : 1. Administrative Officer, MRTT Commission. 2. Under Secretary (Administration), Department of Company Affairs. 3. An officer belonging to Scheduled Caste/Tribe not below the rank of Under Secretary to the Government of India.	Not applicable			

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Stenographer Grade II	Seven	General Central Service Group C (Non-Gazetted) (Ministerial)	Rs 425—15—500— EB—15—560—20— —700—EB—25— 800.	Non-selection	Not applicable	Not applicable
9	10	11	12	13			
Two years	(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation. (ii) 50% by transfer failing which by transfer on deputation.	<i>Promotion</i> Stenographers Grade III in the Commission with 5 years' regular service in that Grade. <i>Transfer/Transfer on deputation</i> Officers holding analogous posts or Stenographers Grade III with 5 years' regular service under the Central Government. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	<i>Composition of D.P.C.</i> Chairman : Deputy Secretary, MRTP Commission. Members : 1. Administrative Officer, MRTP Commission 2. Under Secretary (Administration), Department of Company Affairs. 3. An officer belonging to Scheduled Caste/Tribe not below the rank of Under Secretary to the Government of India.	Not applicable"			

[No. A-12018/1/75-Admn. I]

M. K. KUKREJA, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 95 (अ).—एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 8 के साथ पठित धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग (कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की भर्ती) नियम, 1974 में और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग (कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की भर्ती) सशोधन नियम, 1977 है ।
(2) ये राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. उक्त नियमों की अनुसूची में, मद 8 से 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नांकित प्रविष्टियां रखी जायेगी अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताये	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
"8. निजी सचिव तीन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित)	650-30-740- 35-810-द०रो०- 35-880-40- 1000-द०रो०- 40-1200 रु०	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति 'भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धति के द्वारा भरी जाने वाली	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13
दो वर्ष	(1) 33 1/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर अल्प अवधि सविद सहित प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा । (2) 66 2/3 स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न होने पर, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्प अवधि सविद सहित) द्वारा ।	प्रोन्नति आयोग के आशुलिपिक ग्रेड-2 जो ग्रेड में 14 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों । स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्प अवधि सविद सहित) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के चयन ग्रेड के, छह वर्ष की नियमित सेवा वाले केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-1 के, 14 वर्ष की नियमित सेवा वाले, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-2 के अधिकारी अथवा 425-700/800 रु० के वेतनमान वाले वरिष्ठ आशुलिपिक जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक/विश्व-विद्यालयों के अन्तर्गत उक्त वेतनमान में 14 वर्ष नियमित सेवा कर चुके हो । (प्रतिनियुक्ति अल्प अवधि सविद की अवधि साधारणतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना । अध्यक्ष - सचिव, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग । सदस्य - 1-उप-सचिव, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग । 2. अवर सचिव (प्रशासन), कम्पनी कार्य विभाग । 3. भारत सरकार में कम से कम अवर सचिव के पद का अनुसूचित जाति/जनजाति का एक अधिकारी ।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
9. उच्च श्रेणी लिपिक	छह	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराज-पत्रित) (अनुसन्धी-वीय)	330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560 द०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
9	10	11	12	13			
दो वर्ष	(1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा । (2) 50 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।	प्रोन्नति आयोग के ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की हो । स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में के उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो या ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना अध्यक्ष उप-सचिव, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग । सदस्य . 1. प्रशासनिक अधिकारी, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग । 2. अवर सचिव (प्रशासन) कम्पनी कार्य विभाग । 3. भारत सरकार में कम से कम अवर सचिव के पद का अनुसूचित जाति/जनजाति का एक अधिकारी ।	लागू नहीं होता			

1	2	3	4	5	6	7	8
10. निम्न श्रेणी लिपिक	12 (बारह)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराज- पत्रित) (अनुसचिवीय)	260-6-290- द० रो० 6-326 -8-366-द० रो० 8-390-10— 400 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष	आव०: एक (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता (2) टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति । परन्तु ऐसा कोई शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित हो किन्तु जिसके पास टकण में उक्त अर्हता न हो, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों से सम्बद्ध विशेष नियोजनालय से सलमन चिकित्सा बोर्ड या जहाँ ऐसा बोर्ड न हो वहाँ सिविल सर्जन यह प्रमा- णित करे कि उक्त असुविधा- ग्रस्त व्यक्ति ऐसी ठीक स्थिति में वही है कि वह टाइप करने में समर्थ हो सके ।	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13
दो वर्ष	<p>(1) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती, द्वारा</p> <p>(2) 10 प्रतिशत एकाधिकार एवं निवधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के नियमित स्थापन में के वर्ग 4 कर्मचारियों में से चयन द्वारा जो निम्नलिखित शता के अधीन होगा —</p> <p>(क) चयन ऐसे वर्ग 4 कर्मचारियों में से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो न्यूनतम अर्हता, अर्थात् मैट्रिकुलेशन या सम-तुल्य पूरी करते हो,</p> <p>(ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पच्चास वर्ष) होगी,</p> <p>(ग) वर्ग 4 में कम से कम पांच वर्ष की सेवा आवश्यक होगी, और</p> <p>(घ) इस पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, किसी वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिक के काडर में होने वाली रिक्तियों के दस प्रतिशत तक सीमित होगी, बिना भरी रिक्तियां आगे ले जाई जाएगी ।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
11 टेलीफोन ऑपरेटर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराज- पत्रित) (अनुसचिवीय)	260-6-290- दा० रो० -6-326 -8-366-द० रो० -8-390-10- -400 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष	पी ए बी एक्स एक्सचेन्ज के प्रचा- लन के अनुभव सहित मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ।	लागू नहीं होता
9	10	11	12	13			
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			
1	2	3	4	5	6	7	8
12. स्टाफ कार ड्राइवर	1 (एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराज- पत्रित) (अनुसचि- वीय)	260-6-290-द० रो० -6-326-8-366- द० रो०-8-390- 10-400 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष	आवश्यक चालन में वृत्तिक कुश- लता, मोटर यन्त्रि- कत्व का ज्ञान और	लागू नहीं होता

उसके पास कार
चलाने के लिए विधि-
मान्य अनुज्ञति होनी
चाहिए और उसे
कार चलाने का
कम से कम पाच
वर्ष का अनुभव हो ।

वांछनीय

मिडिल स्कूल स्टेन्डर्ड उत्तीर्ण

9	10	11	12	13
दो वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा	आयोग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से जो स्तम्भ 7 में वर्णित अर्हताएं रखते हों, स्टाफ कार के ड्राइवरो के लिए आवश्यक समझी गई प्रतियोगिता के मापदण्डों के संदर्भ में इस पद के लिए अभिनिर्णीत उपयुक्तता के लिए चालन की परीक्षा के परिणाम पर स्थानान्तरण द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
13	दफ्तरी	3 (तीन) साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (अराज-पत्रित)	200-3-206-4- 234-द० रो०-4- 250 रु०	अवयन	लागू नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
9	10	11	12	13			
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति आयोग के चपरासियों में से जिनकी उम्र ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा हो। स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले ऐसे चपरासी जिनकी उस ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं)	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना अध्यक्ष- प्रशासनिक अधिकारी, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग सदस्य 1 उप निदेशक, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग 2 कम्पनी कार्य विभाग के प्रशासन का कार्यभारी अनुभाग अधिकारी। 3 कम से कम अनुभाग अधिकारी की रैंक का अनुसूचित जाति, जनजाति का एक अधिकारी।	लागू नहीं होता			

1	2	3	4	5	6	7	8
14. जमादार	तीन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (अराज-पत्रित)	200-3-206-4- 234-द० २०-4- 25-0 रु	अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	10	11	12	13			
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न मिलने पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न मिलने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	<p>प्रोन्नति</p> <p>आयोग के चपरामियों में से जिनकी इस ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा हो।</p> <p>स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण</p> <p>केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले ऐसे चपरासी जिनकी उस ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा हो।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना</p> <p>अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग सदस्य : 1. उपनिदेशक, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग</p> <p>2. कम्पनी कार्य विभाग के प्रशासन विभाग का कार्यभारी अनुभाग अधिकारी।</p> <p>3. कम से कम अनुभाग अधिकारी की रैंक का अनुसूचित जाति/जनजाति का एक अधिकारी।</p>	लागू नहीं होता			

1	2	3	4	5	6	7	8
15. चपरासी	14	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (अराज-पत्रित)	196-3-220-द० रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष	मिडिल पास	लागू नहीं होता
9	10	11	12	13			
दो वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न मिलने पर सीधी भर्ती	स्थानान्तरण (1) 75 प्रतिशत-केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले तथा स्तम्भ 7 में दी गई अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा । (2) 25 प्रतिशत-एकाधिकारी एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के उन सफाई कर्मचारियों, फराशों तथा चौकीदारों के स्थानान्तरण द्वारा जिनका उस सेवा में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो , तथा जो प्रारम्भिक शैक्षिक योग्यता रखते हों, जिसका निर्णय, विभागीय लिखित परीक्षा तथा हिन्दी पढ़ने की योग्यता के प्रमाण द्वारा किया जायेगा ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			

1	2	3	4	5	6	7	8
16. सफाई कर्मचारी	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (भराजपत्रित)	196-3-220- द०रो०-3-232 ६०	लागू नहीं होता	25 वर्ष	वांछनीय प्राइमरी स्कूल स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता
9	10		11		12		13
दो वर्ष	सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा	स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति ।			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
1	2	3	4	5	6	7	8
17. चौकीदार	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (भराजपत्रित)	196-3-220- द०रो०-3-232 ६०	लागू नहीं होता	25 वर्ष	वांछनीय प्राइमरी स्कूल स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता
9	10		11		12		13
दो वर्ष	सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा	स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
18. फराश	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (अराजपन्नित)	196-3-220- द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष	वांछनीय प्राइमरी स्कूल स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता
9	10	11	12	13			
दो वर्ष	सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा	स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			
1	2	3	4	5	6	7	8
19. पुस्तकालय	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपन्नित) (सचिवीय)	330-10-380- द०रो०-12-500- द०रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष	आवश्यक 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या इसके समतुल्य । 2. पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र वांछनीय हिन्दी अंग्रेजी टंकण का अभ्यास ।	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13			
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			
1	2	3	4	5	6	7	8
20. आशुलिपिक आठ ग्रेड—3	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराज-पत्रित) (अनुसचि-वीय)	330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष	टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट तथा आशु-लिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति सहित मैट्रिक या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण ।	लागू नहीं होता	

9	10	11	12	13
दो वर्ष	सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में आशुलिपिकों के सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
21. सहायक	चार	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराज-पत्रित) (अनुसूचि-वीय)	425-15-500-द० रो०-15-560- 20-700-द० रो० 25-800 रु०	अवयव पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
9	10	11	12	13			
दो वर्ष	(1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (2) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।	प्रोन्नति : आयोग में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक । स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण-केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति, अथवा ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना अध्यक्ष: उप सचिव, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग सदस्य : 1-प्रशासनिक अधिकारी, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग 2-अवर सचिव (प्रशासन) कम्पनी कार्य विभाग 3-भारत सरकार के कम से कम अवर सचिव की रैंक का अनुसूचित जाति' जनजाति का एक अधिकारी ।	लागू नहीं होता			

1	2	3	4	5	6	7	8
22	आशुलिपिक ग्रेड-2	सात साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराज-पत्रित) अनुसचि-वीय)	425-15-500-द० रो०-15-560- 20-700 द० रो०- 25-800 रु०	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
9	10	11	12	13			
दो वर्ष	(1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (2) 50 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति-आयोग में ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड-3 स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण-केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सदृश पद साधारण करने वाले अधि-कारी अथवा पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना अध्यक्ष : उप सचिव, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग सदस्य 1-प्रशासनिक अधिकारी, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग 2 अवर सचिव (प्रशासन) कम्पनी कार्य विभाग 3 भारत सरकार के कम से कम अवर सचिव की रैंक का अनुसूचित जाति/जनजाति का एक अधिकारी।	लागू नहीं होता			

[सं० ए-12018 1/75-प्रशासन I]

एम० के० कुकरेजा, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

